

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में "फ्यूचर ऑफ क्लासरूम पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक" पर वेबिनार का आयोजन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के हॉल ऑफ गर्ल्स रेसिडेंस ने 8 अगस्त, 2022 को पूरे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए "फ्यूचर ऑफ क्लासरूम पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 'आज़ादी का अमृत महोत्सव, भारत @75' के तहत आयोजित किया गया था।

जामिया के रजिस्ट्रार प्रो. नाज़िम हुसैन अल जाफ़री, इस वेबिनार के संरक्षक थे। उन्होंने वेबिनार के लिए प्रासंगिक विषय चुनने पर आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने शिक्षण और लर्निंग के माहौल में प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रो. चंद्र भूषण शर्मा, स्कूल ऑफ़ एजुकेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ थे। अपने संबोधन में उन्होंने प्रौद्योगिकी एक्सेस पर जोर दिया जो भविष्य की कक्षाओं की बैकबोन होगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आईसीटी की मदद से छात्रों को दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों, सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रमों और सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों तक पहुंचने की सुविधा होगी।

हॉल ऑफ गर्ल्स रेजिडेंस की प्रोवोस्ट प्रो. राणा नूर और वेबिनार की आयोजन अध्यक्ष ने कार्यक्रम के सभी विशिष्ट प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रो. नूर ने जामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर के प्रेरक नेतृत्व और प्रेरणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने जामिया के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नाज़िम हुसैन अल जाफ़री के समर्थन और मार्गदर्शन पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. सविता कौशल, डिप्टी प्रोवोस्ट और आयोजन सह-अध्यक्ष ने स्वागत किया और स्पीकर प्रो. सी बी शर्मा का परिचय दिया। कार्यक्रम का संचालन नॉन-रेजिडेंट वार्डन डॉ. अर्शी सलामत ने किया।

कार्यक्रम का समापन डॉ. काजी फिरदौशी इस्लाम, सीनियर रेजिडेंट वार्डन और वेबिनार के आयोजन सचिव द्वारा प्रश्नोत्तर सत्र और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया